



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 23.12.2020

1-थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 61000 रू० बरामद।

दिनांक 23.12.2020 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मु०अ०स० 801/2020 धारा 381/411 भादवि मे वांछित 01 अभियुक्त विशाल पुत्र सोदान निवासी ग्राम गोधा थाना जवा जिला अलीगढ को थाना क्षेत्र के अण्डर पास की पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 61000 रू० बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल पुत्र सोदान निवासी ग्राम गोधा थाना जवा जिला अलीगढ।

अभियोग का विवरण-

मु०अ०स० 801/2020 धारा 381/411 भादवि थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

61000 रू० सम्बन्धित मु०अ०स० 801/2020 धारा 381/411 भादवि थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर।

2- थाना दनकौर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग मे वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23/12/2020 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 805/2019 धारा 379 भादवि, मु०अ०सं० 705/2019 धारा 379 भादवि तथा मु०अ०सं० 351/2020 धारा- 379,411 भादवि० मे वांछित

एक अभियुक्त अली मौहम्मद पुत्र इलियास निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

अली मौहम्मद पुत्र इलियास निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 805/2019 धारा 379 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 705/2019 धारा 379 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 351/2020 धारा- 379,411 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

3-थाना बीटा 2 पुलिस नोएडा पुलिस, एसओजी टीम व स्टार 2 टीम और बदमाशो के बीच हुई पुलिस मुठभेड मे एडवोकेट हत्याकांड मे शामिल एक बदमाश गोली लगने से घायल अवस्था मे व एक अन्य कांबिंग के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त कार, अवैध शस्त्र मय जिन्दा व खोखा कारतूस व 10000 रूपये बरामद।

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा पुलिस टीम को 50000 के ईनाम की घोषणा।

दिनांक 23/12/2020 को थाना बीटा 2 पुलिस नोएडा पुलिस, एसओजी टीम व स्टार 2 टीम और बदमाशो के बीच थाना क्षेत्र के चुहरपुर अंडरपास के पास हुई पुलिस मुठभेड के दौरान एडवोकेट हत्याकांड में शामिल 02 बदमाश 1. संजीव उर्फ संजू पुत्र नरसिंह निवासी फतेह अलीपुर थाना सिकन्द्राराऊ जिला हाथरस वर्तमान पता इन्द्राज कालोनी चौबे का मकान थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद को घायल अवस्था में व 2. सुभाष चन्द पुत्र स्यौराज सिंह निवासी जैनपुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता आर्दश कालौनी थाना विजय नगर गाजियाबाद को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाशो के कब्जे से एक पिस्टल 0.32 बोर मय 02 मैगजीन, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस, एक कार स्विफ्ट VDI रजि0नं0 UP14CM6041 रंग सफेद(घटना में प्रयुक्त) व 10000 रूपये बरामद हुए है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

दिनांक 17/12/2020 को थाना बीटा 2 क्षेत्र के सेक्टर 36 में हुई वकील फतेह मौहम्मद खान पुत्र स्व0 बुन्दा खान निवासी H-B- 243 सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा थाना बीटा-2 जिला गौतमबुद्धनगर की हत्या का सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा बदमाशो को मुठभेड के उपरान्त गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जिसमें अभियुक्त सुभाष चंद द्वारा चिपियाने की जमीन के विवाद को लेकर राकेश मास्टर व शमीम के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या करवाई गयी थी।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1.संजीव उर्फ संजू पुत्र नरसिंह निवासी फतेह अलीपुर थाना सिकन्दाराऊ जिला हाथरस वर्तमान पता इन्द्राज कालोनी चौबे का मकान थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद।
- 2.सुभाष चन्द पुत्र स्यौराज सिंह निवासी जैनपुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता आर्दश कालौनी थाना विजयनगर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 803/2020 धारा 302 भादवि थाना बीटा 2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 821/2020 धारा 307 भादवि थाना बीटा 2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 822/2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बीटा 2 जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक पिस्टल 0.32 बोर मय 02 मैगजीन, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस
2. एक कार स्विफ्ट VDI रजि0नं0 UP14CM6041 रंग सफेद(घटना में प्रयुक्त)
3. 10000 रूपये

#पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर में शीत लहरी को दृष्टिगत रखते हुए निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को शीत लहरी से बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर के विशेष प्रयास#

दिनांक 23.12.2020 को अभियान चलाकर निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के द्वारा किए गए कंबल वितरण

जनपद गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होने के उपरांत जहां एक ओर अपराधियों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यों को करने के लिए भी पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारी एवं पुलिस टीम के सभी सदस्य लगातार विशेष अभियान संचालित कर रहे हैं। वर्तमान में शीत लहरी को दृष्टिगत रखते हुए असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को शीत लहरी से बचाया जा सके इस क्रम में पुलिस कमिश्नर के सभी अधिकारी एवं

पुलिस टीम के सदस्य अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को कंबल वितरण कर रहे हैं। दिनांक 23.12.2020 को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह भी स्वयं सड़कों पर निकले और अभियान चलाकर निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को कंबल वितरित किए गए हैं ताकि सभी निराश्रित एवं असहाय व्यक्ति शीत लहरी से अपना बचाव कर सकें।



पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में कोविड 19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में दिनांक 23.12.2020 को 306 व्यक्तियों का चालान किया गया व 30600/- शमन शुल्क वसूला गया।

दिनांक 22.12.2020 को रात्रि 10:00 बजे रागिनी पत्नी राजेश निवासी 262 ए श्रमिक कुंज सेक्टर 110 थाना फेस-2 नोएडा ने थाना फेस-2 पर आकर सूचना दी कि मेरे दोनों बच्चे दिव्यांशु उम्र 11 वर्ष एवं रिमझिम उम्र 9 वर्ष शाम को 8:30 बजे से घर से नाराज होकर कहीं चले गए हैं तथा उनका पता नहीं चल सका है थाना फेस-2 पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुए दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर बच्चों की मां के सुपुर्द किया गया। बच्चों को पाकर उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया।

दिनांक 23 दिसम्बर 2020 को सेक्टर 145 के पास एक्सप्रेस वे पर रात्रि करीब 8:10 बजे एक महिला उम्र 38 साल उसके साथ एक 3 साल की बच्ची खड़ी मिली जिसे गश्त के दौरान थानाध्यक्ष नॉलेज पार्क ने टोका व पूछा तो महिला ने बताया कि मेरा नाम सरबती है मेरे पति का नाम दुलीचन्द हैं मै सुरीर मथुरा से नोएडा में अपनी बेटी के यहाँ जाने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी सहनजी गाँव में रहती हैं जो एक्सप्रेस वे के पास ही पड़ता है, इस पर डेल्टा कंट्रोल रूम के माध्यम से सहनजी गाँव की जानकारी सभी थानों से कराई गई, परन्तु इस नाम का कोई गाव पूरे गौतमबुद्धनगर में कोई नहीं पाया गया, महिला के पास किसी का भी मोबाइल नम्बर नहीं था न अपने गाँव का न अपनी बेटी व दामाद का, अनपढ़ होने की वजह से कुछ खास बता भी नहीं पा रही थी, महिला रास्ता भटक जाने व रात हो जाने के कारण घबरा भी भी गयी थी, ऐसे महिला को हिम्मत बधाते हुवे उससे बातचीत जारी रखी गयी व आई क्यू का प्रयोग करते हुए आइडिया किया गया कि सहनजी न होकर कही CNG पम्प न हो तो महिला से पूछा गया कि क्या सहनजी के पास गाड़िया खड़ी होती हैं तो तब उसने बताया कि हाँ वहाँ बसे भी खड़ी होती हैं तब फिर डेल्टा कंट्रोल के माध्यम से पुनः हाइवे के पास पड़ने वाले सभी CNG पम्पो की जानकारी की गई तो थाना इकोटेक प्रथम एरिया में मुरसदपुर गाँव के पास CNG पम्प बताया गया तो महिला को उक्त पम्प के पास ले गए तो पम्प देखते ही महिला चेहरा खिल गया व खुश होकर बोली यही है, फिर आगे का घर तक का रास्ता महिला ने स्वयं बताया महिला को सुरक्षित उसकी पुत्री व दामाद के सुपुर्द किया गया महिला के दामाद विजयपाल ने बताया कि ये दिन के 2 बजे से सुरीर से चली हुई हैं हम लोगो ने इनकी चिंता में खाना तक नहीं खाया हम भी किसी अनहोनी से डरे हुवे थे, महिला व उसके परिजनों के आँखे भर आयी व पुलिस का बार बार हाथ जोड़कर धन्यवाद किया।